

सेमीकॉन डपिलोमेसी एक्शन प्लान

यह एडिटरियल 30/04/2022 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Blueprint for Semicon Diplomacy" लेख पर आधारित है। इसमें 'सेमीकंडक्टर्स' (Semiconductors) के महत्त्व के बारे में चर्चा की गई है और सेमीकंडक्टर चपि वनिरिमाण में आत्मनिर्भर बनने हेतु 'सेमीकॉन डपिलोमेसी एक्शन प्लान' (Semicon Diplomacy Action Plan) का सुझाव दिया गया है।

संदर्भ

सेमीकंडक्टर या अर्द्धचालक बुनियादी वनिरिमाण पदार्थ हैं जो सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिये केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ये सेमीकंडक्टर चपिस अब समकालीन ऑटोमोबाइल, घरेलू गैजेट्स और ईसीजी मशीन जैसे आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का अभिन्न अंग हैं। भारत ने पछिले कुछ वर्षों में सेमीकंडक्टर चपिस के घरेलू वनिरिमाण पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित किया है। यद्यपि इस संबंध में की गई कई पहलें सराहनीय हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं। चपि वनिरिमाण में आत्मनिर्भर बनने के लिये भारत को एक 'सेमीकंडक्टर डपिलोमेसी एक्शन प्लान' (Semiconductor Diplomacy Action Plan) की ज़रूरत है।

सेमीकंडक्टर्स का महत्त्व:

- सेमीकंडक्टर चपिस आधुनिक सूचना युग की जीवनदायिनी हैं। वे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को क्रियाओं की संगणना को सक्षम बनाते हैं जो हमारे जीवन आसान बनाते हैं।
- सूक्ष्म/कुशल सेमीकंडक्टर चपिस के वनिरिमाण की प्रक्रिया शांतकालीन वैश्विक सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- उदाहरण के लिये, यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि हमारे द्वारा उपयोग किये जा रहे उपकरणों में लगा चपि एक जापानी इंजीनियर द्वारा डब मशीनरी पर काम करते हुए वेफर्स के उत्पादन हेतु ताइवान में स्थित एक अमेरिकी फाउंड्री में बनाया गया हो, जसि पैकेजिंग के लिये मलेशिया भेजा गया हो और फरि वह अंतिम तैयार उत्पाद के रूप में भारत आया हो।
- ये सेमीकंडक्टर चपिस सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technologies) विकास के चालक हैं और विश्व के वर्तमान 'फ्लैटनगि' के प्रमुख कारणों में से एक हैं। (उल्लेखनीय है कि थॉमस एल. फ्राइडमैन ने 'World is flattening' वाक्यांश का प्रयोग किया है जसिका अभिप्राय यह है औद्योगिक देशों और उभरते बाज़ार वाले देशों के बीच प्रतस्पर्धी अवसर एक समान स्तर पर आ रहे हैं।)
- सेमीकंडक्टर्स का उपयोग संचार, वदियुत पारेषण जैसे महत्त्वपूर्ण अवसंरचना में किया जाता है, जनिका राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाव पड़ता है।
- 'सेमीकंडक्टर एंड डिसप्ले इकोसिस्टम' (Semiconductor and Display Ecosystem) के विकास का वैश्विक मूल्य शृंखला से गहन एकीकरण के साथ अर्थव्यवस्था के वभिन्न क्षेत्रों में गुणक प्रभाव उत्पन्न होगा।

सेमीकंडक्टर बाज़ार की विकास गाथा में भारत की स्थिति

- भारत वर्तमान में सभी चपिस का आयात करता है और अनुमान है कि वर्ष 2025 तक यह बाज़ार 24 बलियन डॉलर के वर्तमान स्तर से 100 बलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा। हालाँकि सेमीकंडक्टर चपिस के घरेलू वनिरिमाण के लिये भारत ने हाल ही में कई पहलों की शुरुआत की है:
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'सेमीकंडक्टर्स एंड डिसप्ले मैनुफैक्चरिंग इकोसिस्टम' के विकास को समर्थन देने के लिये 76,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।
- भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और सेमीकंडक्टर्स के वनिरिमाण के लिये 'इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के वनिरिमाण संवर्द्धन की योजना' (Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors-SPECS) भी शुरू की है।
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिज़ाइन लिंक्ड इन्सेंटिव (DLI) योजना भी शुरू की है ताकि सेमीकंडक्टर डिज़ाइन से संलग्न कम से कम 20 घरेलू कंपनियों का संपोषण किया जा सके और वे अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर हासिल कर सकें।
- चूँकि अनुमान है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर बाज़ार 1.2 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा, भारत को इसमें अपनी हसिसेदारी सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त रूप से तैयार होने की ज़रूरत है।
- हाल ही में घोषित 'सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम' (Semicon India Programme), जो 10 बलियन डॉलर की वित्तीय सहायता एवं अन्य गैर-वित्तीय साधन प्रदान करता है, सही दिशा में बढ़ाया गया कदम है।

- अमेरिका-चीन प्रतस्पर्धा एवं संघर्ष तथा अन्य राजनीतिक-सामरिक-आर्थिक कारणों से हाल के समय में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs) अपनी उत्पादन गतिविधियों को चीन से बाहर स्थानांतरित कर रही हैं।
- यह उपयुक्त अवसर है कि सेमीकॉन चिपस के लिये प्रोडक्शन हाउसों की स्थापना के लिये भारत को एक मजबूत विकल्प के रूप में पेश किया जाए।

सेमीकंडक्टर के घरेलू वनिरिमाण से संबद्ध समस्याएँ

- **कुछ देशों का प्रभुत्व:** सेमीकंडक्टर वनिरिमाण क्षमता कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित रही है। लगभग समस्त अग्रणी (Sub 10nm) अर्द्धचालक वनिरिमाण क्षमता ताइवान एवं दक्षिण कोरिया तक सीमति है और इनमें भी लगभग 92% ताइवान में स्थिति है।
- इसके अलावा अर्द्धचालक वनिरिमाण क्षमता का 75% पूर्वी एशिया और चीन में केंद्रित है।
- क्षमताओं का यह संकेंद्रण कई चुनौतियाँ उत्पन्न करता है और कई देश कुछ देशों के समक्ष कमजोर पड़ जाते हैं।
- आशय यह है कि भारत और प्रमुख शक्तियों के बीच तनाव और संघर्ष के क्षण भी उभर सकते हैं।
- स्वायत्त रहने की क्षमता को बनाए रखने के लिये भारत को न केवल कुशल गठबंधन बल्कि स्वदेशी क्षमता की भी आवश्यकता है।
- **पश्चिमी कंपनियों का सहयोग:** हालाँकि भारत में चिप डिज़ाइन हेतु कुशल प्रतभा मौजूद है, इसने कभी भी चिप फैब क्षमता (chip fab capacity) का वनिरिमाण नहीं किया। इसके लिये पश्चिमी कंपनियों को भारत में उन्नत सिलिकॉन फैब्स (silicon Fabs) स्थापित करने हेतु राजी करने की भी आवश्यकता होगी।
- हालाँकि भारत में कई सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना भर ही पर्याप्त नहीं होगी। इस क्षेत्र में वैश्वीकरण को प्रोत्साहन और 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के बीच एक संतुलन बनाए रखने की भी आवश्यकता होगी।

भारत की 'सेमीकंडक्टर डिलोमेसी' एवं समस्याएँ

- हालिया अवसरों का लाभ उठाना: वर्तमान दशक भारत के लिये एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है, क्योंकि—
- कंपनियों अपनी आपूर्ति शृंखला में विविधता लाना चाहती हैं और चीन में अपने ठिकानों के लिये विकल्पों की तलाश कर रही हैं।
- कोविड-19 के कारण चिप की कमी से वाहन निर्माताओं को वर्ष 2021 में 110 बिलियन डॉलर की राजस्व हानि पहुँचाई।
- रूस-यूक्रेन संघर्ष और सेमीकंडक्टर मूल्य शृंखला के लिये कच्चे माल की आपूर्ति पर इसके प्रभाव ने भी चिप निर्माताओं को सेमीकॉन आपूर्ति शृंखला को सुदृढ़ करने हेतु नविश करने के लिये प्रेरित किया है।
- भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये और सेमीकंडक्टर वनिरिमाण के लिये एक आकर्षक वैकल्पिक गंतव्य के रूप में उभरना चाहिये।
- **'सेमीकॉन डिलोमेसी एक्शन प्लान' की संकल्पना:** सेमीकॉन डिलोमेसी को भारत की विदेश नीति के केंद्र में रखना रणनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से आवश्यक है।
- अर्द्धचालकों के लिये मूल्य शृंखला की स्थापना से समग्र अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव सुनिश्चित होगा।
- इसके अलावा, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएँ तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के बाद सबसे अधिक आयातित वस्तुओं में से एक हैं, घरेलू उत्पादन भारत के लिये विदेशी मुद्रा की बचत करेगा और भुगतान संतुलन को कम करेगा (वर्षीय रूप से चीन के परपिरेक्ष्य में)।
- **'सेमीकॉन डिलोमेसी' को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के साथ संयुक्त करना:** सेमीकॉन डिलोमेसी भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) के लिये महत्त्वपूर्ण है जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में लचीले संबंधों के वनिरिमाण का लक्ष्य रखता है।
- चूँकि सेमीकंडक्टर वनिरिमाण और परीक्षण ठिकाने पूर्वी एशिया में बहुत अधिक केंद्रित हैं, एक्ट ईस्ट नीति क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के साथ संपर्क और संबंधों को मजबूत बनाने का अवसर प्रदान करती है।
- इसके साथ ही, वृहत लक्ष्य पर नज़र बनाए रखते हुए आसियान (ASEAN) जैसे क्षेत्रीय समूह और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) एवं आसियान क्षेत्रीय मंच (ASEAN regional forum) जैसे मंचों के माध्यम से लगातार तकनीकी सहयोग और आदान-प्रदान लाभप्रद होगा।
- **सेमीकॉन डिलोमेसी में 'क्वाड' की क्षमता:** सेमीकॉन डिलोमेसी का लाभ उठाने का एक तरीका यह है कि बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाए। इस संबंध में अपार संभावनाओं वाला एक प्रमुख माध्यम 'क्वाड' (Quad) है।
- अर्द्धचालक के लिये आवश्यक कच्चे माल के मामले में समृद्ध ऑस्ट्रेलिया भारत की कमी को पूरा करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता साबित हो सकता है।
- क्षमता वनिरिमाण के लिये और लॉजिक एवं मेमोरी खंडों में उनकी उन्नत अर्द्धचालक प्रौद्योगिकी के लिये अमेरिका और जापान का लाभ उठाया जा सकता है।
- **'क्वाड सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला पहल'** (Quad Semiconductor Supply Chain Initiative) एक आशाजनक आरंभिक बटु है; भारत को भू-राजनीतिक और भौगोलिक जोखिमों से आपूर्ति शृंखला की प्रतिकक्षा के लिये एक 'क्वाड सप्लाइ चैन रेजिलियेंस फंड' (Quad Supply Chain Resilience Fund) की स्थापना पर बल देना चाहिये।
- **प्रमुख सेमीकॉन केंद्रों के साथ संलग्नता को मजबूत करना:** वियतनाम के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग पर बल दिया जाना चाहिये क्योंकि वहाँ प्रशिक्षण और कुशल जनशक्ति की अपार उपलब्धता के साथ ही माइक्रोचिप डिज़ाइन एवं विकास के क्षेत्र में कई तकनीकी अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थान अवस्थित हैं।
- सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और वनिरिमाण के लिये एक प्रमुख वैश्विक केंद्र ताइवान (जिसकी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसी अग्रणी चिप उत्पादक कंपनियों Apple, Intel, AMD, Nvidia जैसे प्रौद्योगिकी दगिगजों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं) के साथ रणनीतिक भागीदारी का वनिरिमाण भी इस दिशा में एक अच्छी शुरुआत होगी।

अभ्यास प्रश्न: "भारत का पड़ोस उसकी राजनयिक नीति में हमेशा से एक विशेष स्थान रखता रहा है। भारत द्वारा सेमीकंडक्टर वनिरिमाण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का अर्थ होगा-दक्षिण एशियाई क्षेत्र का सामूहिक विकास।" टपिणी कीजिये।

